



MISSISSAUGA

News Release

mississauga.ca

facebook.com/citymississauga

twitter.com/citymississauga

Mississauga में एरियल स्प्रे प्रोग्राम शुरू हो रहा है

City of Mississauga, अस्थायी तौर पर नियत 15 मई को शुरू और 12 जून, 2022 को खत्म करते हुए, एरियल स्प्रे कर रही है। स्प्रे, सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक की जाएगी। स्प्रे, प्रभावित शहर नेबरहुड्स में, Lymantria dispar dispar (LDD) पर काम करेगी और इन्हें संभालेगी, इसे पहले “gypsy moth” कहा जाता था। स्प्रे का समय, मौसम संबंधी स्थितियों, LDD इल्ली के प्रकट होने और पेड़ों पर पत्तों के विकास पर निर्भर करता है। वार्ड्स 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के specific areas में प्राइवेट और पब्लिक जमीन पर स्प्रे की जाएगी।

सिटी ने स्प्रे करने के लिए, Zimmer Air Services के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। स्प्रे सिस्टम के साथ, दो हेलिकॉप्टर पेड़ों से लगभग 15 से 30 मीटर ऊपर उड़ेंगे। स्प्रे मौसम के हिसाब से होगी और केवल सही स्थितियों में ही की जाएगी। हर क्षेत्र में, लगभग सात से 10 दिनों के अंतराल से, दो बार स्प्रे की जाएगी।

सिटी ने स्प्रे से संबंधित आपके किसी भी खास सवालों पर ध्यान देने के लिए, विस्तृत, FAQs ड्राफ्ट किया है, या आप 20 अप्रैल की public meeting देख सकते हैं।

स्प्रे करने की खास तारीखों का चयन 48 घंटे पहले किया जाता है और मौसम संबंधी स्थितियों के आधार पर यह 12 घंटे पहले रद्द की जा सकती है। सिटी, प्रत्येक इलाज से 48 घंटे पहले पब्लिक नोटिस जारी करेगी, जो एरियल स्प्रे वेबसाइट पर सूचीबद्ध है और mississauga.ca/2022spray पर, सोशल मीडिया, @citymississauga और @saugaparksrec पर अप-टू-डेट जानकारी देगी। निवासियों को सलाह दी जाती है कि एरियल स्प्रे संबंधी news alerts के लिए, साइन-अप करें।

स्प्रे संबंधी स्थान

यह पता लगाने के लिए कि क्या आपका घर, स्प्रे क्षेत्र में आता है, ऑनलाइन, Aerial Spray Treatment map देखें।


News Release



mississauga.ca

facebook.com/citymississauga

twitter.com/citymississauga



स्प्रे किए जाने वाले नेबरहुड्स	स्प्रे किए जाने वाले पार्क्स और वुड्स
Central Erin Mills Clarkson-Lorne Park Cooksville West Creditview East Credit Erindale Erin Mills Gordon Woods Meadowvale Village Mineola Rathwood Sheridan South Common Streetsville Southdown University of Toronto Mississauga (UTM)	Britannia Woods Community Forest Dr. Martin L. Dobkin Community Park Eden Woods Hyde's Mill Hollow Jaycee Park Marco Muzzo Sr. Memorial Park Meadowvale Conservation Area Paul Coffey Park Pinecliff Park Riverview Park Riverwood Sparling Woods Staghorn Woods Windrush Woods

एरियल स्प्रे के बारे में



News Release

mississauga.ca

facebook.com/citymississauga

twitter.com/citymississauga

एरियल स्प्रे में, बायोलॉजिकल कीड़ेमार दवाई, [Foray 48B Biological Insecticide, Aqueous Suspension](#) का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें the Pest Control Product Act के अंतर्गत रजिस्टर्ड, सक्रिय सामग्री *Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki* (Btk) स्ट्रेन ABTS-351 Registration #24977 शामिल है। [Health Canada](#) के मुताबिक, Btk इलाज को मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बहुत कम जोखिम वाला माना गया है। Btk, LDD जीवन चक्र की केवल इल्ली स्टेज पर ही विषेली होती है और यह वयस्क पतंगों या तितलियों को प्रभावित नहीं करती।

कीड़ेमार दवाई संबंधी, सिटी का [public notice](#) देखें।

व्यापक LDD आबादियों का इलाज करने का सबसे प्रभावी तरीका, हवा से Btk छिड़कना है। हालांकि एरियल स्प्रे, LDD को जड़ से खत्म नहीं करती, परंतु यह आबादियों को कम करके अधिक संभालने योग्य स्तरों तक कर देगी। स्प्रे, पेड़ों के सबसे ऊपरी हिस्सों पर की जाएगी।

एरियल स्प्रे के दिन के लिए तैयारी करना

सिटी, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि Mississauga को स्वस्थ और सभी निवासियों के लिए रहने योग्य रखने में सभी संभव कदम उठा रही है। निवासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा, सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। पब्लिक को सुबह के समय हेलिकॉप्टर के शोर सुनाई दे सकते हैं। पब्लिक, स्टाफ और स्प्रे करने वालों के लिए कम से कम जोखिम को सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षा संबंधी सभी जरूरी सावधानियां बरती जाएंगी।

Peel Public Health सलाह देती है कि निवासी, स्प्रे के दौरान और इसके बाद 30 मिनट कर, बूंदों को सेटल होने देने के लिए इनडोर ही रहें।

स्प्रे से पहले, निवासियों को यह करना चाहिए:

- खिड़कियां बंद कर दें
- पंखे और एयरकंडीशनर बंद कर दें, या रीसर्कुलेट सेटिंग चुनें
- धोने वाले कपड़े और खिलौने अंदर ले आएं
- सभी सब्जी और हर्ब गार्डनों के ढक दें
- पालतू जानवरों को अंदर रखें
- पूल्स, BBQs, खेलने वाले उपकरण, लॉन फर्नीचर और ऑटोमोबाइल्स को ढक दें

स्प्रे के बाद, निवासियों को यह करना चाहिए:

- पूल कवर्स, BBQs, खेलने वाले उपकरण, लॉन फर्नीचर और ऑटोमोबाइल्स को पानी से धोएं/खंगालें

News Release



mississauga.ca

facebook.com/citymississauga

twitter.com/citymississauga

- निजी और भोजन संबंधी अच्छी तरह सफाई रखें (उदाहरण के लिए, आउटडोर गतिविधियों के बाद हाथ धोना, खास करके बागबानी करने के बाद; बाहरी जूतों को दरवाजे पर ही छोड़ दें; खाने या पकाने से पहले सभी फलों और सब्जियों को धोएं)
- घर में दाखिल करने से पहले पालतू जानवरों के पंजे धो दें

स्वास्थ्य और Btk के प्रयोग के बारे में किसी भी चिंताओं या सवालों के लिए निवासी, [Peel Public Health](#) को, 905-799-7700 पर फोन कर सकते हैं। निवासी अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं।

सड़कों का बंद होना और ट्रैफिक संबंधी विघ्न

सिटी, एक ट्रैफिक प्लान लागू करेगी, जिसमें सड़कों, पार्कों और ट्रेल को अस्थाई रूप से बंद करने की जरूर है। यह क्लोजर, Transport Canada की मंजूरी शर्तों को पूरा करने के लिए जरूरी हैं। ट्रैफिक को स्प्रे के दौरान हेलिकॉप्टर गतिविधि से सुचेत करने के लिए, फ्लैशिंग लाइटों और साइनेज वाले वाहनों का प्रयोग भी किया जाएगा।

सड़कें, सुबह 5 बजे और 7:30 बजे संभावी तौर पर 30 मिनट से कम समय तक बंद की जा सकती हैं। सभी एमरजेंसी सेवाओं की, स्प्रे ज़ोन्स के अंदर सभी प्रॉपर्टीज तक पूरी पहुंच होगी।

आपकी प्रॉपर्टी पर LDD पर नियंत्रण पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस बारे में सवालों के लिए अप-टू-डेट जानकारी, एरियल स्प्रे विवरणों, जैसे स्प्रे की तारीखों, समय और जगहों के लिए, 311 (905-615-4311 पर, यदि City of Mississauga की सीमाओं से बाहर) पर फोन करें या mississauga.ca/2022spray पर जाएं।

फोटो



[\[Download photo\]](#)

News Release



mississauga.ca

facebook.com/citymississauga

twitter.com/citymississauga



[\[Download photo\]](#)

-30-

मीडिया संपर्क:

City of Mississauga Media Relations

media@mississauga.ca

905-615-3200, ext. 5232

TTY: 905-896-5151